



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012-श्रावण 19, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कु. अर्चना दिगम्बरिया पुत्री विश्वकर्मा था, दिनांक 30 जनवरी, 2005 को मेरा विवाह ग्वालियर निवासी श्री अनिल कुमार सिंह, नि. सुरेश नगर, 450, ठाटीपुर, ग्वालियर के साथ हो चुका है, विवाहोपरांत मेरा नाम श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह हो गया है. अब भविष्य में मुझे श्रीमती अर्चना सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं सभी दस्तावेजों में मेरे उपनाम के रूप में श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(अर्चना दिगम्बरिया)

(अर्चना सिंह)

पुत्री विश्वकर्मा, दतिया (म. प्र.).

पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह,

नि. 450, सुरेश नगर,

(99-बी.)

ठाटीपुर, मुरार, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मेरे पक्षकार का नाम श्री कलविन्दर सिंह रंधावा (Sri Kalvinder Singh Randhava) से परिवर्तित होकर कलविन्दर सिंह रंधावा (Kalvinder Singh Randhawa) हो गया है, जोकि सही नाम है. जिसे कि आगे से समस्त शासकीय/अशासकीय एवं संबन्धित दस्तावेजों में कलविन्दर सिंह रंधावा (Kalvinder Singh Randhawa) के नाम से जाना जावेगा.

भवदीय

(एम. पी. उपाध्याय)

अधिवक्ता,

पता—यूजीएफ-04, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स,

जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल.

(100-बी.)

उप नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम संदीप सागर था जो अब बदलकर संदीप श्रीवास हो गया है। अतः भविष्य में अब मुझे संदीप श्रीवास के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(संदीप सागर)

(102-बी.)

नया नाम :

(संदीप श्रीवास)

पता—31 बी, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल (म. प्र.).

उप नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम सीमा सागर था जिसे मैंने परिवर्तित करके सीमा श्रीवास रख लिया है। अतः भविष्य में अब मुझे सीमा श्रीवास के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सीमा सागर)

(103-बी.)

नया नाम :

(सीमा श्रीवास)

पता—31 बी, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रानी बिरथरे ने विवाह उपरांत अपना नाम परिवर्तन कर हर्षिता कर लिया था। जो मैं पुनः अपना नाम बदलकर रानी टहिलानी कर लिया है। अब से मुझे रानी टहिलानी के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(रानी बिरथरे/हर्षिता)

(104-बी.)

नया नाम :

(रानी टहिलानी)

123 FH स्कीम नं. 54,
इंदौर (म. प्र.).

सार्वजनिक संशोधित सूचना

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. गैलेक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता—प्रतिपाल परिसर, सागर रोड, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/00141/12 सन् 2011-12, दिनांक 11 जनवरी, 2012 है।

यह कि आज दिनांक 24 मार्च, 2012 से फर्म के भागीदार श्री अखिलेश असाठी तनय श्री शिवचरण असाठी आयु 40 वर्ष, निवासी असाठी मोहल्ला, छतरपुर एवं भागीदार श्रीमती भगवती असाठी पत्नी श्री शिवचरण असाठी आयु 65 वर्ष, निवासी असाठी मोहल्ला, छतरपुर (मध्यप्रदेश) फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं। जो आज दिनांक 24 मार्च, 2012 से प्रभावशील है।

यह कि उक्त भागीदारों से फर्म का कोई सरोकार नहीं रहा एवं फर्म के वास्ते उनसे किया संव्यवहार शून्य माना जावेगा। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मे. गैलेक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर,

विश्वमित्र बुन्देला,

द्वारा—भागीदार.

(101-बी.)

आम सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स परिकल्प एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म में दिनांक 16 मई, 2012 को निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है.—

1. इस फर्म के पुराने भागीदार (1) श्री जितेन्द्र बंसल पुत्र श्री राज कुमार बंसल, निवासी—70, मैना वाली गली, लश्कर, ग्वालियर स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गए हैं एवं श्री जितेन्द्र बंसल ने फर्म में जमा अपनी समस्त राशि मय ब्याज के चेक द्वारा वापस प्राप्त कर ली है एवं आज दिनांक तक उनका मेसर्स परिकल्प एसोसिएट में किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं है। अब उपरोक्त फर्म में आज दिनांक से शेष पार्टनर (1) श्री गिराज अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हीरालाल अग्रवाल, निवासी—हीरा मार्केट, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री भरत लाल पुत्र स्व. श्री हीरालाल अग्रवाल, निवासी—दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर, (3) श्री रूपेश अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी—12, गीता कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, (4) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी—कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर, (5) श्री महेश भारद्वाज पुत्र

श्री एम.एल. भारद्वाज, निवासी—28, ललितपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर, (6) श्रीमती ओमवती अग्रवाल पत्नी श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, निवासी—कसेरा ओली, लशकर, ग्वालियर, (7) डॉ. पुरूषोत्तम जाजू पुत्र श्री हरगोविन्द जाजू, निवासी—रॉयल हॉस्पिटल, कम्पू रोड, लशकर, ग्वालियर फर्म में यथावत बने रहेंगे.

2. फर्म का पंजीकृत कार्यालय पुराने पते F-30, संजय कॉम्प्लेक्स, लशकर, ग्वालियर पर ही रहेगा.

For Parikalp Associates,
Partner.

(105-बी.)

F-30, संजय कॉम्प्लेक्स, लशकर, ग्वालियर.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 23 जून, 2012

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2011-2012.

प्रारूप-4

(नियम-5 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नीमच के समक्ष,

क्र. 1483/रीडर-1/2012.—चूंकि आवेदक सुनीलकुमार पिता विरेन्द्रकुमार पाटीदार, अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी, नीमच की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11 मई, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, अनिल पटवा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच अपने न्यायालय में दिनांक 06 जुलाई, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

(न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	..	सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी.
अचल सम्पत्ति का विवरण	..	निरंक.
चल सम्पत्ति का विवरण	..	रुपये 9,500/- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जावी में न्यास के बाबत खाता क्रमांक 32124757779 में जमा है.

अनिल पटवा,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. 03/बी-113/2011-12.

(शीर्षक माधव स्मृति न्यास ट्रस्ट)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूँकि श्री भैरवप्रसाद दीप पिता स्व. श्री माधवप्रसाद, निवासी—ग्राम बौलाई, संस्थापक द्वारा माधव स्मृति न्यास ट्रस्ट, बौलाई, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्वसम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . . नगदी राशि रुपये 5,000/-

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . . निरंक.

(349)

प्र. क्र. 02/बी-113/2011-12.

(शीर्षक जय माँ दुर्गा कृपा केन्द्र ट्रस्ट)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूँकि श्री भैरवप्रसाद दीप पिता स्व. श्री माधवप्रसाद, निवासी—ग्राम बौलाई, संस्थापक द्वारा जय माँ दुर्गा कृपा केन्द्र ट्रस्ट, बौलाई, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्वसम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . . नगदी राशि रुपये 5,000/-

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . . खाता क्र. 1773 रकबा 1.881 आरे में से हिस्सा 1/3 भूमि सर्वे नम्बर 843/1 मिन रकबा 0.627 व 843/1 मिन रकबा 2.209 में ट्रस्ट माधव स्मृति बनाने हेतु आवेदक भैरवप्रसाद द्वारा भूमि दी गई है.

(349-A)

अवधेश शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2012

प्र. क्र. 01/08-09/बी-113.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, श्योपुर जिला के समक्ष.

यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिए मैं अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर, लोक न्यासों का पंजीयक, श्योपुर जिला मेरे न्यायालय, श्योपुर केके 11 अगस्त, 2012 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : "श्री केशव जी महाराज मन्दिर"

कस्बा बडोदा की ग्राम कलोनी, बावडीचापा, महाराजपुरा.

सम्पत्ति का विवरण : मन्दिर की 455 बीघा भूमि.

(350)

एम. के. तेजस्वी,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सागर

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक डॉ. बट्टीप्रसाद पुत्र स्व. उदय चंद जैन (प्रबंधक), निवासी—ए-4, प्रसाद आवासीय परिसर, मनोरमा कॉलोनी, सागर, तुलसी स्मृति न्यास परकोटा वार्ड, सागर (मध्यप्रदेश), तहसील सागर द्वारा नियम 4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "तुलसी स्मृति न्यास परकोटा वार्ड, सागर, मध्यप्रदेश" न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 27 अगस्त, 2012 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	“तुलसी स्मृति न्यास” तुलसी स्मृति न्यास परकोटा वार्ड, सागर (मध्यप्रदेश)
अचल सम्पत्ति	:	एक निर्मित हॉल व ऊपर का एक कक्ष बड़े जीना के ऊपर परकोटा वार्ड, सागर (नगर निगम सागर की सीमा में अवस्थित.)
अन्य चल सम्पत्ति	:	2 दरी, 1 माईक सेट, 3 पंखे, 1 मोटर, 1 अलमारी, 1 कूलर सभी वस्तुओं की प्राक्कलन राशि 11,700/- (अंकन ग्यारह हजार सात सौ रुपये है.)

(351)

रवीन्द्र चौकसे,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बुरहानपुर, वनमण्डल (सा.), बुरहानपुर

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि बुरहानपुर वनमण्डल के निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2012 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु-स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

प्रपत्र-1

चराई वर्ष 2012-13 चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल (सा.)

परिक्षेत्र	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
असीर	2007-08	आर. डी. एफ., धुलकोट	W/95	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., इटारिया	W/164	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., प. दहीनाला	W/20	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., हरदा	W/181	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., अंबा	W/157	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., दवाटिया	W/140	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., पुरा	W/135	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., पुरा	W/136	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., असीर	W/154	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., गंभीरपुरा	W/182	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ., झिरपांजरिया	W/161	50	-
	2007-08	उर्जा वन पुरा	133	50	-
	2007-08	उर्जा वन खातला	127	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., धुलकोट	95	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., सुक्ता	92	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., गंभीरपुरा	94	50	-

1	2	3	4	5	6
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., हरदा	123	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., अंबा	81	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., पुरा	130	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., पुरा	136	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., खातला	127	50	-
	2008-09	ए. एन. आर., पुरा	135	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., खातला	126	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., खातला	169	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ., असीर	154	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., उ. पाडल्या	85	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., उ. गंभीरपुरा	92	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., गंभीरपुरा	94	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., धुलकोट	95	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., धुलकोट	96	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., डिमानिया	123	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., खातला	127	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	133	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	134	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., नसीमपुरा	142	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., उ. नसीमपुरा	118	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ., कोटराखेडा	130	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	134	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	135	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	133	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ., धुलकोट	95	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., गंभीरपुरा	94	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., निंबोला	183	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., दक्षिण ठाठर	182	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., इटारिया	89	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ.	85	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ., उत्तर ठाठर	168	50	-
	2010-11	रा. रो. गा. योजना, कोटराखेडा	130	100	-
	2010-11	रा. रो. गा. योजना, पू. नसीमपुरा	143	100	-
	2010-11	गेप प्लांटिंग, कोटराखेडा	130	10	-
	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, असीर	P 152	50	-
	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, निंबोला	157	100	-
	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, खातला	125	100	-
	2010-11	उर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (A)	10	-

1	2	3	4	5	6
असीर	2010-11	उर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (B)	10	-
	2010-11	उर्जा वन एवं चारागाह विकास	123	10	-
	2010-11	उर्जा वन एवं चारागाह विकास	153 (A)	10	-
	2010-11	उर्जा वन एवं चारागाह विकास	153 (B)	10	-
	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	-
	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	123	40	-
	2010-11	बांस वृक्षारोपण	134	75	-
	2010-11	गेप प्लांटिंग	134	25	-
	2010-11	सागौन रूटसूट रोपण	154	25	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	92	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	89	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	94 (A)	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	94 (B)	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	138	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	133	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (A)	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (B)	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	156	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	164	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	148	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	154	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	149	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	144	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ.	160	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	118 (A)	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	118 (B)	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	96	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	169	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	84 (A)	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	84 (B)	40	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	162	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	168	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	122	50	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	99	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	98	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	26	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	27	100	-

1	2	3	4	5	6
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	25	100	-
	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	150	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	135 (A)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	135 (B)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	156 (A)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	156 (B)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	169 (A)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	169 (B)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (A)	15	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (B)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	136 (A)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	136 (B)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (A)	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (B)	10	-
	2011-12	बांस वृक्षारोपण	133	40	-
	2011-12	बांस वृक्षारोपण	81	30	-
	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	95	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	23	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	184	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	157	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	180	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	181	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	163	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	164	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	167	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	135	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	136	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	127	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	89	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	92	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	154	50	-
	2012-13	आर. डी. एफ.	145	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	24	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	25	50	-

1	2	3	4	5	6
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	26	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	82	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	99	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	91	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	87	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	83	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	69	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	71	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	72	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	73	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	74	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	76	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	77	50	-
	2012-13	अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	78	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	80	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	117	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	119	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	120	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	67	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	62	50	-
		अतिक्रमण मुक्त आर.डी.एफ. क्षेत्र	66	50	-
योग . .				7380	-
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	E/46	50	-
	2007-08	कूप क्र. आई. एस. सी. आई.	E/47	85.25	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	214	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	218	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	-
	2007-08	उर्जा वन	214	20	-
	2007-08	चारागाह विकास	227	20	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	202	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण, गोलखेडा	E/298	50	-

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2007-08	उर्जा वन	E/295	20	-
	2007-08	उर्जा वन	E/296	20	-
	2007-08	आर. डी. एफ. ई./3, 245	E/3, 245	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ.	E/20, 247	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ. (ए. एन. आर.)	E/19, 246	50	-
	2007-08	उर्जा वन	E/3, 245	20	-
	2007-08	चारागाह विकास	E/3, 245	20	-
	2007-08	एफ. डी. ए. (ए. एन. आर.)	E/3, 245	50	-
	2007-08	चारागाह विकास	E/40, 266	20	-
	2007-08	आर. डी. एफ.	W/44	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ.	W/45	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ.	W/43	50	-
	2007-08	आर. डी. एफ.	W/42	50	-
	2007-08	सलाई वृक्षारोपण	W/44, 42, 43	60	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	W/43	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	W/42	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	W/44, 42, 43	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	266	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	244	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	232	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	229	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	231	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	189	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	190	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	200	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	197	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	208	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	209	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	217	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	272	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ.	230	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	236	150	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	263	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	218	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	186	150	-

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	187	150	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	224	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	233	50	-
	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से. मुक्त)	204	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	100	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	266	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	230	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	236	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	186	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	187	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	218	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	204	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	223	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	225	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	222	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	226	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	220	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	207	50	-
	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	221	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	202	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	100	-

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	206	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	193	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	218	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	225	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	204	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	207	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	263	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	215	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	206	100	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	244	40	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	188	30	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	186	50	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	189	25	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	217	10	-
	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	297	30	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	194	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	268	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	30	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	-

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	40	-
	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	30	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	222	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	-
	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	50	-
	2011-12	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	215	20	-
	2011-12	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	229	10	-
	2011-12	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	294	20	-
	2011-12	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	193	10	-
	2011-12	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	212	10	-
	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	297	30	-
	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	217	10	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	189	25	-
	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	193	25	-
	2011-12	बांस वृक्षारोपण	192	50	-
		योग . .		7630.25	-
खकनार	2007-08	प. सोनूद	321	50	-
	2007-08	नावथा	324	50	-
	2007-08	देवरी	337	50	-
	2007-08	डबाली	335	50	-
	2007-08	डबाली	336	50	-
	2007-08	सामरिया	334	50	-
	2007-08	सामरिया	330	50	-
	2007-08	नावथा	327	50	-

1	2	3	4	5	6
खकनार	2007-08	सोनूद	319	50	-
	2007-08	भौराघाट	313	50	-
	2007-08	भौराघाट	312	50	-
	2007-08	कालापाट	380	50	-
	2007-08	नानानगरी	356	50	-
	2007-08	नानानगरी	355	50	-
	2007-08	पाचोरी	362	50	-
	2007-08	पाचोरी	363	50	-
	2007-08	पाचोरी	364	50	-
	2007-08	जामन्या	376	50	-
	2007-08	मांजरोद	308	50	-
	2007-08	नायर	384	50	-
	2007-08	नावथा	324	50	-
	2007-08	सोनूद	321	50	-
	2007-08	शंकरपुरा	336	50	-
	2007-08	सोनूद	322	50	-
	2007-08	सोनूद	320	50	-
	2007-08	सामरिया	334	50	-
	2007-08	सामरिया	330	50	-
	2008-09	नानानगरी	355	50	-
	2008-09	कालापाट	380	150	-
	2008-09	नावथा	327	50	-
	2008-09	पाचोरी	364	100	-
	2008-09	सोनूद	321	50	-
	2008-09	उसारनी	384	50	-
	2008-09	मोहनगढ़	356	50	-
	2008-09	पाचोरी	362	100	-
	2008-09	पाचोरी	363	100	-
	2008-09	उसारनी	376	50	-
	2009-10	मांजरोद	307	50	-
	2009-10	उसारनी	376	50	-
	2009-10	भौराघाट	312	100	-
	2009-10	भौराघाट	313	150	-
	2009-10	सोनूद	319	100	-
	2009-10	चाकबारा	495	50	-
	2009-10	चाकबारा	496	50	-

1	2	3	4	5	6
खकनार	2009-10	डवाली	326	100	-
	2009-10	पाचोरी	364	100	-
	2009-10	सामरिया	330	50	-
	2009-10	सोनूद	322	100	-
	2009-10	सामरदेच	307	25	-
	2009-10	नावथा	327	25	-
	2009-10	राजोरा	380	50	-
	2009-10	सोनूद	389	50	-
	2010-11	देवरी	337	100	-
	2010-11	डवाली	326	100	-
	2010-11	सामरिया	334	50	-
	2010-11	सोनूद	319	50	-
	2010-11	पाचोरी	362	100	-
	2010-11	भौराघाट	312	50	-
	2010-11	भौराघाट	313	50	-
	2010-11	चाकबारा	495	100	-
	2010-11	चाकबारा	496	100	-
	2010-11	उसारनी	384	50	-
	2010-11	आमगांव	371	50	-
	2010-11	उसारनी	384	50	-
	2010-11	सोनूद	320	20	-
	2010-11	बोरखेड़ा	310	20	-
	2010-11	मांजरोद	308	150	-
	2010-11	भौराघाट	312	100	-
	2010-11	भौराघाट	313	100	-
	2010-11	सोनूद	319	150	-
	2010-11	धाबा	317	50	-
	2011-12	नानानगरी	355	50	-
	2011-12	पाचोरी	362	50	-
	2011-12	पाचोरी	363	50	-
	2011-12	मांजरोद	307	50	-
	2011-12	भौराघाट	313	100	-
	2011-12	नावथा	327	20	-
	2011-12	डवाली	326	100	-
	2011-12	डवाली	335	100	-
	2011-12	देवरी	337	100	-

1	2	3	4	5	6
खकनार	2011-12	बोरखेडा	310	10	-
	2011-12	बोरखेडा	310	10	-
	2011-12	सामरिया	332	10	-
	2011-12	करदली	347	10	-
	2011-12	शंकरपुरा	338	10	-
	2011-12	शंकरपुरा	338	10	-
	2011-12	कालापाट	501	10	-
	2011-12	नागझिरी	369	10	-
	2011-12	सोनूद	321	60	-
	2011-12	शंकरपुरा	338	50	-
	2011-12	उसारनी	384	50	-
	2011-12	भौराघाट	312	25	-
	2011-12	भौराघाट	313	50	-
	2011-12	रायतलाई	300	35	-
	2011-12	उसारनी	384	40	-
	2011-12	आमगांव	371	50	-
	2011-12	नावथा	324	80	-
योग . .				5730	
बुरहानपुर	2007-08	बिरोदा	W/104	50	-
	2007-08	बिरोदा	W/105	50	-
	2007-08	सोलाबर्डी	W/125	50	-
	2007-08	उताम्बी	W/109	50	-
	2007-08	गढताल	W/126	50	-
	2007-08	चिल्लारा	E/138	50	-
	2007-08	झापरपुरा	E/145	50	-
	2007-08	चिल्लारा	E/148	50	-
	2007-08	धामनगांव	532	50	-
	2007-08	चिडियापानी	E/150	50	-
	2007-08	मोरझिरा	170	50	-
	2007-08	बिरोदा	P/174	50	-
	2007-08	उताम्बी	109	50	-
	2007-08	सोलाबर्डी	121	50	-
	2007-08	सोलाबर्डी	122	50	-
	2007-08	गढताल	W/117	50	-
	2007-08	पांढरी	139	50	-
	2007-08	धामनगांव	528	50	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2007-08	चिचाला	P/2	20	-
	2007-08	ठाठर	20 (93 A)	20	-
	2007-08	बलडी	E/14	20	-
	2007-08	इच्छापुर	E/469	20	-
	2007-08	मोरझिरा	E/460	20	-
	2007-08	भावसा	E/434	20	-
	2007-08	पातोंडा	P/4	20	-
	2007-08	उताम्बी	W/32	20	-
	2007-08	संग्रामपुर	431	20	-
	2007-08	झापरपुरा	492	20	-
	2007-08	सोलाबडी	42	20	-
	2007-08	गढताल	46	20	-
	2007-08	जम्बुपानी	416	20	-
	2007-08	चिल्लारा	E/394	20	-
	2007-08	जम्बुपानी	E/397	20	-
	2007-08	कालमाटी	407	20	-
	2007-08	तारापाटी	400	20	-
	2008-09	इच्छापुर	P 468	50	-
	2008-09	इच्छापुर	465	50	-
	2008-09	इच्छापुर	P 470	50	-
	2008-09	फोफनार	433	50	-
	2008-09	फोफनार	434	50	-
	2008-09	गढताल	40	50	-
	2008-09	गढताल	46	50	-
	2008-09	लालबाग	7	50	-
	2008-09	लालबाग	11	50	-
	2008-09	लालबाग	P 4	50	-
	2008-09	लालबाग	18	50	-
	2008-09	लालबाग	12	50	-
	2008-09	लालबाग	10	50	-
	2008-09	जसोंदी	392	50	-
	2008-09	जम्बुपानी	405	50	-
	2008-09	मोहद	455	50	-
	2008-09	भावसा	450	50	-
	2008-09	फोफनार	428	50	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2008-09	जम्बुपानी	410	50	--
	2008-09	भावसा	440	50	--
	2008-09	जम्बुपानी	411	50	--
	2008-09	गढताल	41	50	--
	2008-09	गढताल	42	50	--
	2008-09	गढताल	37	50	--
	2008-09	लालबाग	9	50	--
	2008-09	लालबाग	P 5	50	--
	2008-09	लालबाग	31	50	--
	2008-09	गढताल	49	50	--
	2008-09	लालबाग	22	50	--
	2008-09	गढताल	51	50	--
	2008-09	भावसा	448	50	--
	2008-09	जम्बुपानी	P 426	50	--
	2008-09	लालबाग	19	50	--
	2008-09	लालबाग	8	50	--
	2008-09	जसोंदी	491	50	--
	2008-09	इच्छापुर	469	20	--
	2008-09	भावसा	434	20	--
	2008-09	भावसा	343	10	--
	2009-10	बिरोदा	10	50	--
	2009-10	भौलाना	7	50	--
	2009-10	ठाठर	17	50	--
	2009-10	गढताल	38	50	--
	2009-10	तारापाटी	400	50	--
	2009-10	कालमाटी	404	50	--
	2009-10	कालमाटी	408	50	--
	2009-10	धामनगांव	455	50	--
	2009-10	इच्छापुर	468	50	--
	2009-10	इच्छापुर	465	50	--
	2009-10	उताम्बी	33	50	--
	2009-10	गढताल	36	50	--
	2009-10	सोलाबर्डी	42	50	--
	2009-10	सोलाबर्डी	41	50	--

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2009-10	पांढरी	410	50	-
	2009-10	पांढरी	411	50	-
	2009-10	कालमाटी	442	50	-
	2009-10	चौण्डी	441	50	-
	2009-10	भौलाना	9	50	-
	2009-10	उताम्बी	31	50	-
	2009-10	बसाली	49	50	-
	2010-11	भौलाना	16	50	-
	2010-11	बलडी	12	50	-
	2010-11	चौण्डी	424	50	-
	2010-11	ठाठर	18	50	-
	2010-11	बिरोदा	10	50	-
	2010-11	भौलाना	11	50	-
	2010-11	उताम्बी	33	50	-
	2010-11	सोलाबर्डी	44	50	-
	2010-11	कालमाटी	404	50	-
	2010-11	कालमाटी	405	50	-
	2010-11	पांढरी	416	50	-
	2010-11	जम्बुपानी	419	50	-
	2010-11	धामनगांव	455	50	-
	2010-11	धामनगांव	456	50	-
	2010-11	धामनगांव	462	50	-
	2010-11	इच्छापुर	464	50	-
	2010-11	भौलाना	17	50	-
	2010-11	बसाली	49	50	-
	2010-11	उताम्बी	34	50	-
	2010-11	सोलाबर्डी	41	50	-
	2010-11	सोलाबर्डी	42	50	-
	2010-11	गढ़ताल	37	50	-
	2010-11	बसाली	31	50	-
	2010-11	चौण्डी	441	50	-
	2010-11	चौण्डी	442	50	-
	2010-11	चौण्डी	447	50	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2010-11	चौण्डी	448	50	-
	2010-11	जम्बुपानी	427	50	-
	2010-11	तारापाटी	440	50	-
	2011-12	चिडियापानी	428	100	-
	2011-12	चिडियापानी	431	100	-
	2011-12	संग्रामपुर	429	50	-
	2011-12	चौण्डी	446	50	-
	2011-12	धामनगांव	456	50	-
	2011-12	धामनगांव	455	50	-
	2011-12	धामनगांव	474	50	-
	2011-12	धामनगांव	452	50	-
	2011-12	मोरझिरा	459	50	-
	2011-12	चिल्लारा	388	50	-
	2011-12	ठाठर	18	50	-
	2011-12	ठाठर	17	50	-
	2011-12	ठाठर	16	50	-
	2011-12	उताम्बी	35	50	-
	2011-12	सोलाबडी	40	50	-
	2011-12	गढताल	46	50	-
	2011-12	गढताल	44	50	-
	2011-12	कालमाटी	419	50	-
	2011-12	कालमाटी	404	50	-
	2011-12	कालमाटी	408	50	-
	2011-12	पांढरी	414	50	-
	2012-13	राजोरा	445	50	-
	2012-13	भावसा	433	50	-
	2012-13	कालमाटी	408	50	-
	2012-13	कालमाटी	405	50	-
	2012-13	कालमाटी	403	50	-
	2012-13	पांढरी	412	50	-
	2012-13	उ. गढताल	46	50	-
	2012-13	पूर्व गढताल	36	50	-
	2012-13	इच्छादेवी	470	50	-
	2012-13	झापरपुरा	491	50	-
	2012-13	कुवरदेव	389	50	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2012-13	उ. बलड़ी	12	50	-
	2012-13	ठाठर	16	50	-
	2012-13	ठाठर	17	50	-
	2012-13	ठाठर	18	50	-
	2012-13	ठाठर	20	50	-
	2012-13	बिरोदा	10	50	-
	2012-13	बिरोदा	11	50	-
योग . .				7590	

प्रपत्र-2

चराई हेतु वर्ष 2012-13 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची बुरहानपुर वनमण्डल (सा.)

परिक्षेत्र	उप वन परिक्षेत्र	बीट	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (है. में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर			निरंक		-
असीर			निरंक		-
नेपानगर			निरंक		-
खकनार			निरंक		-

प्रपत्र-3

चराई वर्ष 2012-13 में बंद कूपों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल (सा.) बुरहानपुर

परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम/ कक्ष क्र.	कूप क्र.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
खकनार	भौराघाट	310	II, III, IV, VI	702.52	-
	भौराघाट	314	V, VI	118.49	-
	सामरदेव	329	II, III, IV, V, VI	519.77	-
	सामरिया	332	II, VI	560.59	-
	सामरिया	338	III, IV, V	658.66	-
	मोहनगढ़	350	II, III, IV, VI	741.47	-
	मोहनगढ़	349	V, VI	89.1	-
	पाचोरी	360	II, VI	280.77	-
	पाचोरी	361	III, IV, V, VI	302.62	-
	पांगरी	P 340, 341	VI	212.78	-
	पांगरी	357	II, III, IV, VI	365.07	-
	पांगरी	358	V, VI	78.1	-
	दांतपहाड़ी	365	II, III, IV, V, VI	571.72	-
	आमगांव	369	II, III, IV, V, VI	684.72	-
	घावटी	378	II, III, IV, V, VI	512.56	-
बुरहानपुर	चौण्डी	437	I, II, III	749.89	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	तारापाटी	387	I, II	575.73	-
	तारापाटी	394	III	110.52	-
	जसोंदी	490, 492	I	216.4	-
	जसोंदी	413	II	207.72	-
	जसोंदी	P/409, 486, 412	III	151.05	-
	जम्बुपानी	420	I, II	117.05	-
	जम्बुपानी	423	III	82.42	-
	चौण्डी	436	IV	138.21	-
	तारापाटी	394	IV	106.65	-
	जसोंदी	402	IV	135.35	-
	जम्बुपानी	423	IV	92.35	-
	चौण्डी	430	V	159.57	-
	तारापाटी	395	V	92.05	-
	जसोंदी	402	V	141.92	-
	जम्बुपानी	423	V	102.47	-
	जम्बुपानी	423	VI	160.34	-
	चौण्डी	430	VI	171.24	-
	तारापाटी	395	VI	112.10	-
	जसोंदी	402	VI	105.97	-
	नेपानगर	हिवरा	259	II	362.73
हिवरा		260	III, IV, V	539.02	-
बाकडी		275	I	122.75	-
बाकडी		276	II, III, IV, V, VI	433.6	-
छिरवा		282	II, III, IV, V, VI	382.92	-
गुजरीखेडा		283	II, III, IV, V, VI	417.62	-
मझगांव		288	II, III, IV, V, VI	497.79	-
साजनी		291	II, III, IV, V	361.09	-
हसनपुरा		213	V, VI	196.15	-
हसनपुरा		210	II	157.89	-
हसनपुरा		203	III, IV	315.59	-
अहमदनगर		243	II, III	425.67	-
अहमदनगर		237	IV, V	244.12	-
ढेहरिया		262	III, IV	270.93	-
ढेहरिया	250	II	238.17	-	
ढेहरिया	254	V, VI	184.78	-	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	हैदरपुर	273	II, III, IV	268.77	-
	हैदरपुर	267	IV	76.92	-
	हैदरपुर	270	VI	121.11	-
	हिवरा	274	VI	219.82	-
	मझगांव	286	VI	79.2	-
	साजनी	291	VI	84.15	-
	अहमदनगर	242	VI	214.76	-
असीर			निरंक		

(340)

डी. के. अग्रवाल,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

सतना, दिनांक 4 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पी.डी.एस./परि./2012/786.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अटरा, पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 01 जनवरी, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कार्यालयीन आदेश क्रमांक पीडीएस/2011/495, सतना, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उचेहरा से कराई गई. प्रस्तुत किये गये जांच रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संस्था मुख्यतः व्यक्तिगत हित के लिये कार्य कर रही है, न कि साधारण सदस्यों के लिये. फलस्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ख) (ग) अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./पी.डी.एस./परिसमापन/11/1042, दिनांक 08 अगस्त, 2011 जारी कर संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करे.

इस पर संस्था द्वारा अपने पत्र क्र./11/क्यू/अटरा, दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया. संस्था का उत्तर तथ्यात्मक एवं समाधानकारक नहीं होने से कार्यालयीन पत्र क्र./पी.डी.एस./11/1760, सतना, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 द्वारा संस्था से अभिलेख मांगे गये, जो संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये. उक्त से यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अटरा, पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 01 जनवरी, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(341)

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 29 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू/2012.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 573, 568, 575, 576, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के

अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पटकन टोला कोठी	215, दिनांक 17-11-95	573, दिनांक 10-5-2012
2.	रेत पत्थर खदान सह. समिति मर्या., नागौद	132, दिनांक 24-05-94	568, दिनांक 10-5-2012
3.	महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या. संग्राम कॉलोनी, सतना	154, दिनांक 31-12-94	575, दिनांक 10-5-2012
4.	हरे रामा प्राथ. उप. भण्डार मर्या., वार्ड 18, सतना	236, दिनांक 24-12-96	576, दिनांक 10-5-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तों मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

विक्रम सिंह,
परिसमापक.

(342)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बामन्दी, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/853, दिनांक 20 फरवरी, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 608, दिनांक 14 मई, 2012 संस्था के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समितियों के सदस्यों द्वारा समिति के कार्यों में रूचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत होने के पूर्व संस्था की ओर से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत होते हुए संस्था को परिसमापन में लाने की स्वीकृति प्रदान की है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बामन्दी को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कसरावद को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जगदीश कनोज,
उप-पंजीयक.

(343)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला राजगढ़ (ब्याबरा)

राजगढ़, दिनांक 25 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1156.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है, कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/38, राजगढ़, दिनांक 13 जनवरी, 2010 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे

पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	26/03-02-1956	38/13-01-2010
2.	आदर्श परिवहन सह. संस्था मर्या., जीरापुर	8003/20-01-1959	38/13-01-2010
3.	विश्वकर्मा शिल्पकार सह. संस्था मर्या., माचलपुर	18/04-11-1963	38/13-01-2010
4.	आदर्श कबूलर्स सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	146/04-08-1966	38/13-01-2010
5.	सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	157/05-04-1989	38/13-01-2010
6.	शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	61/05-02-1974	38/13-01-2010
7.	कर्मचारी वेतनभोगी साख सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	01/22-10-1959	38/13-01-2010

अतः मैं, आर. व्ही. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (आडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 25 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(344)

आर. व्ही. गुप्ता,
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

डॉ. अम्बेडकर गृह निर्माण मर्यादित, झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/1861, दिनांक 26 अक्टूबर, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1179, दिनांक 11 नवम्बर, 2002 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 26 जून, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(346)

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012-श्रावण 19, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के राजगढ़ जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला राजगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला धार, प. निमाड़, बैतूल व भोपाल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला दतिया, दमोह, अनूपपुर व डिण्डोरी में फसल गेहूँ व पन्ना में मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर तथा सीधी, देवास, मण्डला में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, रायसेन तथा छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, सोयाबीन,गेहूँ, राई- सरसों	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह				
2. पोरसा				
3. मुरैना				
4. जौरा				
5. सबलगढ़				
6. कैलारस				
*जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. श्योपुर				
2. कराहल				
3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अटेर				
2. भिण्ड				
3. गोहद				
4. मेहगांव				
5. लहार				
6. मिहोना				
7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर				
2. डबरा				
3. भितरवार				
4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा				
2. दतिया				
3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, चना, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी				
2. पिछोर				
3. खनियाधाना				
4. नरवर				
5. करैरा				
6. कोलारस				
7. पोहरी				
8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. सांरगपुर	..				
7. पलेरा	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. ओरछा	..				
10. लिधौरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई- सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा ..					
2. बटियागढ़ ..					
3. दमोह ..					
4. पथरिया ..					
5. जवेरा ..					
6. तेन्दूखेड़ा ..					
7. पटेरा ..					
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर ..					
2. मझगवां ..					
3. रामपुर-बघेलान ..					
4. नागौद ..					
5. उचेहरा ..					
6. अमरपाटन ..					
7. रामनगर ..					
8. मैहर ..					
9. बिरसिहपुर ..					
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, जौ, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर ..					
2. सिरमौर ..					
3. सेमरिया ..					
4. मऊगंज ..					
5. मनगवां ..					
6. हनुमना ..					
7. हजूर ..					
8. गुढ़ ..					
9. रायपुरकचुलियान ..					
10. जबा ..					
11. नईगढ़ी ..					
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर ..					
2. ब्यौहारी ..					
3. जैसिहनगर ..					
4. जैतपुर ..					
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी ..					
2. अनूपपुर ..					
3. कोतमा ..					
4. पुष्पराजगढ़ ..					
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ ..					
2. पाली ..					
3. मानपुर ..					

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों, अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ, मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्या	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मो. बड़ौदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापपीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, आलू, प्याज अधिक. चना, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकरबुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुलठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचोपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	3.2				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
*जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गन्ना	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		अधिक.	..	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2)	
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इछांवर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचौली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर सुधरी हुई.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सौसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. मोहखेड़ा 11. हरई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसीर 7. धनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला श्योपुर, गुना, रतलाम, बड़वानी, विदिशा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(339)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.